

(3)
“(xiv) धारा 110 की उपधारा (1), (3) और (5)”.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं. 450/43/2025-सीमा शुल्क-IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना [सं. 26/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)] जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1601(अ), दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के तहत प्रकाशित शुद्धि पत्र के साथ पठित का.आ.सं. 1542(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3186 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2022 और का.आ. 5773 (अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

No.63/2025-Customs (N.T)

S.O. 4504(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) [No. 26/2022-Customs (N.T.)] number S.O. 1542 (E), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table-

- (a) against serial number 6, in column (3), for item (vi) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(3)
“(vi) Sub -sections (1), (3) and (5) of Section 110”;

- (b) against serial number 7, in column (3), for item (xiv) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(3)
“(xiv) Sub -sections (1), (3) and (5) of Section 110”.

2. This notification shall come in force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 450/43/2025-Cus-IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note : The principal notification [No. 26/2022-Customs (N.T.)] was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022, read with corrigendum published *vide* notification number S.O. 1601 (E), dated the 4th April, 2022 and was subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3186(E), dated the 14th July, 2022 and S.O. 5773 (E), dated the 10th December, 2022.